

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 06 अगस्त 2022

प्रश्न -1

प्रमुख प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?

- A) IISc-बेंगलुरु
- B) IIT-खड़गपुर
- C) IIT-मद्रास
- D) NIT-तिरुचिरापल्ली

सही उत्तर: A

विमानन अनुसंधान और विकास पर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम करने के लिए बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) और भारतीय नौसेना के बीच एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए गए।

प्रश्न -2

निम्नलिखित में से कौन भारत में मंकीपॉक्स वायरस की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स का नेतृत्व करेगा?

- A) आर.के. पॉल
- B) एस.के. पॉल
- C) टी.के. पॉल
- D) वी.के. पॉल

सही उत्तर: D

केंद्र ने भारत में मंकीपॉक्स मामलों के मद्देनजर डॉ वी.के. पॉल की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जो नैदानिक सुविधाओं के विस्तार पर सरकार को निगरानी और मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 06 अगस्त 2022

प्रश्न -3

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से किसे पीछे छोड़ सावित्री जिंदल (भारत) एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई?

- A) यांग हुआयान
- B) कार्तिनी मुलजादि
- C) जीना राइनहार्ट
- D) फेन हॉगवेई

सही उत्तर: A

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स में चीन की यांग हुआयान को भारत की सावित्री जिंदल ने एशिया की सबसे अमीर महिला के रूप में पीछे छोड़ दिया।

प्रश्न -4

निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल वाल्डेज़ रामोस का हाल ही में निधन हो गया है?

- A) वियतनाम
- B) थाईलैंड
- C) फिलीपींस
- D) इंडोनेशिया

सही उत्तर: C

फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल वाल्डेज़ रामोस का हाल ही में निधन हो गया है। वह 94 वर्ष के थे।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 06 अगस्त 2022

प्रश्न -5

निम्नलिखित में से किसने "एम्फीबिअन्स ऑफ़ दी नॉर्थेर्न वेस्टर्न घाट्स" नामक पुस्तक लिखी है?

- A) सतीश पांडे
- B) माधव गाडगिल
- C) एराच भरुचा
- D) विधान कांति दास

सही उत्तर: A

टाटा पावर ने इला फाउंडेशन के सहयोग से "एम्फीबिअन्स ऑफ़ दी नॉर्थेर्न वेस्टर्न घाट्स" पर एक श्रृंखला में चौथी पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक को सतीश पांडे ने विवेक विश्वासराव और ग्राम पुरोहित के इनपुट के साथ लिखा है।

प्रश्न -6

स्कूल शिक्षा परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीति आयोग और रीच टू टीच संगठन के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?

- A) पश्चिम बंगाल
- B) तमिलनाडु
- C) अरुणाचल प्रदेश
- D) गुजरात

सही उत्तर: C

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग और 'रीच टू टीच' संगठन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 06 अगस्त 2022

प्रश्न -7

राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निम्नलिखित में से किसने 49 किग्रा भारोत्तोलन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है?

- A) संकेत महादेव सरगर
- B) मीराबाई चानू
- C) गुरुराजा पुजारी
- D) बिंद्यारानी देवी

सही उत्तर: B

भारत की दिग्गज भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के 49 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है।

प्रश्न -8

निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे टिकाऊ हाइड्रोजन ईंधन सेल विकसित किया है?

- A) यूनिवर्सिटी शेफीड
- B) टोरंटो विश्वविद्यालय
- C) आयोवा विश्वविद्यालय
- D) हांगकांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

सही उत्तर: D

हांगकांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (HKUST) के वैज्ञानिकों द्वारा एक नया हाइड्रोजन ईंधन सेल विकसित किया गया है जो दुनिया का सबसे टिकाऊ हाइड्रोजन ईंधन सेल है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 06 अगस्त 2022

प्रश्न -9

चाबहार दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था?

- A) मुंबई
- B) हैदराबाद
- C) दिल्ली
- D) बेंगलुरु

सही उत्तर: A

पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने चाबहार- इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC)- मध्य एशियाई बाजारों को जोड़ने के लिए मुंबई में 'चाबहार दिवस' मनाया।

प्रश्न -10

निम्नलिखित में से किस भारोत्तोलन श्रेणी में अचिंता शुली ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का तीसरा स्वर्ण पदक जीता?

- A) 86 किग्रा
- B) 73 किग्रा
- C) 67 किग्रा
- D) 60 किग्रा

सही उत्तर: B

अचिंता शुली ने 2022 में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की 73 किग्रा स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।